



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 6] नई दिल्ली, फरवरी 4—फरवरी 10, 2007, शनिवार/माघ 15—माघ 21, 1928  
No. 6] NEW DELHI, FEBRUARY 4—FEBRUARY 10, 2007, SATURDAY/MAGHA 15—MAGHA 21, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2007

सा.का.नि. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान में आशुलिपिक श्रेणी “ख” (निजी सहायक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान आशुलिपिक श्रेणी “ख” भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक श्रेणी "ख" (निजी सहायक)	1*(2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	5500-175- 9000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता			
(8)	(9)	(10)	(11)			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)	(14)

**प्रोन्नति :**

ऐसा आशुलिपिक जिसने 5000-8000 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।

**टिप्पण :** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

(ख) जो निम्नवत शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :

(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ;

(ii) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति सविदा की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

**प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति :**

1. निदेशक, लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय)
2. अपर निदेशक, लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध-शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय)
3. सहायक निदेशक, लोक नायक जय प्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान (गृह मंत्रालय)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

—अध्यक्ष

—सदस्य

—सदस्य

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 31st January, 2007

**G.S.R. 23.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Stenographer Grade 'B' (Personal Assistant), in the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science under the Ministry of Home Affairs, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science, Stenographer Grade 'B' (Personal Assistant) (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—(1) The method of recruitment, to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service is admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade 'B' (Personal Assistant)	01* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)	(8)		(9)		(10)
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption or grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

(12)

Promotion failing which by deputation.

**Promotion :**

Stenographer Grade C in the Pay scale of Rs 5000-8000 with 3 years regular service in the grade.

**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation :**

Officers under the Central Government

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Posts in the pay scale of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/department;
- (b) Possessing the educational qualifications and experience as under :
  - (i) Matriculation of a recognized board or equivalent.
  - (ii) A speed of 100 words per minute in stenography (English/Hindi)

(The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition.

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

**Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion :**

Consultation with the UPSC not necessary

(1) Director

Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Science (Ministry of Home Affairs)

—Chairman

(2) Additional Director

276 4867-2

(13)

Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute  
of Criminology and Forensic Science (Ministry of  
Home Affairs)

—Member

(3) Assistant Director

Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute  
of Criminology and Forensic Science (Ministry of  
Home Affairs)

—Member

[F. No. 4/4/2006-LN/JN NICFS/PM.II]

RAMAN MEHRA, Under Secy.

### कृषि मंत्रालय

( पशु पालन, डेयरी और मत्स्यकी विभाग )

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2007

**सा.का.नि. 24.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय के पशु पालन, डेयरी और मत्स्यकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य, संस्थान बागपत में निदेशक (समूह 'क') के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत में निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

निदेशक	1*(2007) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	18400-500- 22400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
--------	---	---	-------------------------	----------------	----------------	----------------

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
---	--	----------------------------------	---

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
--	--	---

(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति : ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ):- I. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/स्वशासी/ कानूनी संगठनों/विश्वविद्यालय के अधीन ऐसे अधिकारी, जो-	लागू नहीं होता	भर्ती नियमों को बनाने और संशोधन करने तथा पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना

(i) मूल काडर/विभाग नियमित आधार पर सदृश पद धारण  
किए हुए हैं; या

(ii) मूल काडर/विभाग में 16400-20000 रुपए या समतुल्य के  
वेतनमान में, नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस  
श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या

(iii) मूल काडर/विभाग में 14300-18300 रुपए या समतुल्य के  
वेतनमान में, नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस  
श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और

(12)

## II. निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता है,—

**आवश्यक :** क. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.बी.एस. सी./बी.बी.एस.सी. और पशुपालन में डिग्री या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की प्रथम या द्वितीय अनुसूची में यथासूची समतुल्य;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र/विषाणु विज्ञान/विकृति विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/अणु सुक्ष्म जीव विज्ञान/प्रतिरक्षा विज्ञान/परजीवी विज्ञान/पशु चिकित्सा जन स्वास्थ्य में एम.बी.एस. सी. या समतुल्य;

(iii) भारत की पशु चिकित्सा परिषद्/राज्य की पशु चिकित्सा परिषद् के पास पंजीकृत होना चाहिए; और

(iv) अनुसंधान/प्रशासन/प्रशिक्षण/नीति बनाना/शिक्षा और योजना में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें पांच वर्ष का वैक्सीन और बायलोजीकल्स में अनुसंधान/विनिर्माण/विनियमन/क्वालिटी नियंत्रण में होना चाहिए।

या

ख. (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अणु सुक्ष्म जीव विज्ञान/जीवाणु विज्ञान/सीरम विज्ञान/विषाणु विज्ञान/रूधिर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य;

(ii) भारत की पशु चिकित्सा परिषद्/राज्य की पशु चिकित्सा परिषद् के पास पंजीकृत होना चाहिए; और

(iii) अनुसंधान/प्रशासन/प्रशिक्षण/नीति बनाना/शिक्षा और योजना में 15 वर्ष का अनुभव, जिसमें पांच वर्ष का वैक्सीन और बायलोजीकल्स में अनुसंधान/विनिर्माण/विनियमन/क्वालिटी नियंत्रण में होगा।

**वांछनीय :** (i)क (ii) या ख(i) में उल्लेखित किसी विषय में डाक्टरेट डिग्री हो; और

(ii) शिक्षा/योजना/प्रशासन से संबंधित गर्वनेन्स/नीति के बनाने से संबंधित पशुपाल/चिकित्सा विज्ञान/विश्वविद्यालय/कानूनी निकाय में व्यवहार करने में, उच्चतर स्तरों पर कार्य करने का अनुभव हो। [प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]



**MINISTRY OF AGRICULTURE****(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)**

New Delhi, the 22nd January, 2007

**G.S.R. 24.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to regulating the method of recruitment to the post of Director (Group 'A') in the National Institute of Animal Health, Bagpat, in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Institute of Animal Health, Bagpat, Director (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and scale of pay.**—The number of said posts, its classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—(1) The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director	1(One) * (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs.18,400-500- 22,400	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		

2769567-3

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer to be made

(11)

(12)

Deputation (including short term contract).

**Deputation (including short-term contract)**

I. Officers under the Central /State Governments/Union Territories/ Autonomous/Statutory Organisation/Universities :—

(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 16,400—20,000 or equivalent in the parent cadre/department; or

(iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 14,300-18,300 or equivalent in the parent cadre/department; and

II. Possessing the following educational qualifications and experience :

**Essential :**

A. (i) B.V.Sc./ B.V.Sc. & Animal Husbandry Degree from a recognized University or equivalent as listed in the first or second schedule to the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);

(ii) M.V.Sc. in Medicine/Virology/Pathology/Bacteriology/ Microbiology/Immunology/Parasitology/Veterinary Public Health from a recognized University or equivalent;

(iii) should be registered with Veterinary Council of India/State Veterinary Council; and

(iv) fifteen years experience in research/administration/training/ policy making/education and planning, out of which, atleast five years should be in the research/manufacture/regulations/quality control in the field of vaccines and other biologicals.

OR

B. (i) Post graduate medical degree in the field of Microbiology/ Bacteriology/Serology/Virology/Hematology from a recognized university or equivalent;

(ii) should be registered with Medical Council of India/State Medical Council; and

(iii) fifteen years experience in research/administration/training/ policy making/education and planning, out of which, atleast five years should be in the research/manufacture/regulation/quality control of vaccines and biologicals.

**Desirable :**

(i) A Doctorate degree in any of the subjects mentioned in A (ii) or B (i) and

(ii) Experience of working at higher levels in Animal Husbandry/ medical department/Universities/Statutory Bodies dealing with governance/policy making related to education/planning/ administration.

(12)

(Period of deputation/contract including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of the receipt of application.

If DPC is exists what is its Composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Not applicable

Consultation with the Union Public Service Commission for filling up of post and framing and amendment of RR.

[F.No.12-3/2005-A.III]

A. K. JAIN, Under Secy.